



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2010/माघ 14, 1931

No. 204]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2010/MAGHA 14, 1931

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2010

का.आ. 245(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2612(अ), तारीख 6 नवम्बर, 2008 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, राजस्थान राज्य के जिला सीकर (श्रीमाधोपुर) में विशेष रेल परियोजना वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में तारीख 1 फरवरी, 2009 को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आक्षेप फाइल नहीं किया गया ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और, यह और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए सीकर जिले की श्रीमाधोपुर तालुक के भीतर की अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित, संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अवाप्त क्षेत्र हैक्टर	काशतकार का नाम/पिता का नाम जाति निवास के पते सहित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	(1) कांवट	2383	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन नदी	0.0096	राजस्थान सरकार
		2362	राजस्थान सरकार	बारानी 3	0.0450	राजस्थान सरकार
	(2) (कांवट) घसीपुरा	2349	राजस्थान सरकार	बारानी 3	0.1535	राजस्थान सरकार
		2332	राजस्थान सरकार	बारानी 3	0.1189	राजस्थान सरकार
		2331	राजस्थान सरकार	बजड 1	0.0100	राजस्थान सरकार
		2330	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन आबादी	0.0092	राजस्थान सरकार
		2135	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन सडक	0.0255	पी.डब्ल्यू.डी. सडक
		2060	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0600	राजस्थान सरकार
		2050	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0274	राजस्थान सरकार
		1422	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन खड्डा	0.0054	राजस्थान सरकार
		1420	राजस्थान सरकार	बजड 1	0.0119	राजस्थान सरकार
		1415	राजस्थान सरकार	बजड 1	0.0600	राजस्थान सरकार
		1416	राजस्थान सरकार	बजड 1	0.0377	राजस्थान सरकार
		1202	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन नाला	0.1100	राजस्थान सरकार
		1200	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन नाला	0.2500	राजस्थान सरकार
		1201	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन नाला	0.1200	राजस्थान सरकार
		1197	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन नाला	0.0034	राजस्थान सरकार
		1198	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन नाला	0.0536	राजस्थान सरकार
	(3) जुगलपुरा	2191	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0900	राजस्थान सरकार
		2199	राजस्थान सरकार	बारानी 3	0.0500	राजस्थान सरकार
		2201	राजस्थान सरकार	बारानी 3	0.2500	राजस्थान सरकार
		2262	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0051	राजस्थान सरकार
		2325	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0080	राजस्थान सरकार
		2326	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0600	राजस्थान सरकार
		2403	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन नदी	0.1908	राजस्थान सरकार
	(4) काल्यावास	67	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.5400	राजस्थान सरकार
		121	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन नाला	0.1200	राजस्थान सरकार
		160	राजस्थान सरकार	बारानी 3	0.1500	राजकीय उच्च प्राथमिक विधायल कालियावास खातेदार
		162	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन सडक	0.0984	सडके महकमा पी.डब्ल्यू.डी.
		166	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0259	राजस्थान सरकार
		165	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.1300	राजस्थान सरकार
	(5) भादवाडी	1594	राजस्थान सरकार	आबादी	0.0200	राजस्थान सरकार
		1593	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन खारडा	0.2000	राजस्थान सरकार
		1592	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन खारडा	0.2300	राजस्थान सरकार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1591	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन खारडा	0.1200	राजस्थान सरकार
		1558	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0450	राजस्थान सरकार
		1532	राजस्थान सरकार	आबादी	0.1000	राजस्थान सरकार
		1530	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0032	राजस्थान सरकार
		1529	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0127	राजस्थान सरकार
		1526	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0569	राजस्थान सरकार
		1528	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.1092	राजस्थान सरकार
		1525	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0542	राजस्थान सरकार
		1513	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन खारडा	0.1665	राजस्थान सरकार
(6) माधो का वास		172/300	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.1300	राजस्थान सरकार
		241	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0367	राजस्थान सरकार
		154/299	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.6000	राजस्थान सरकार
(7) जोरावर नगर		595	राजस्थान सरकार	चरागाह	0.3811	राजस्थान सरकार
(8) कंचनपुर		811	राजस्थान सरकार	बजड 1	0.1571	राजस्थान सरकार
		812	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0168	राजस्थान सरकार
		825	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.4000	राजस्थान सरकार
		790	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0416	राजस्थान सरकार
(9) दानी ढेरा वाली		1680	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0218	राजस्थान सरकार
(10) हासपुर		1128	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0121	राजस्थान सरकार
(11) श्रीमाधोपुर		1936	राजस्थान सरकार	चारागाह	1.6056	राजस्थान सरकार चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु
		2014	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन खड्डा	0.2593	राजस्थान सरकार सिवाचक
		2108	राजस्थान सरकार	गै मुसड़क	0.0791	सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान पी.डबल्यू.डी. श्रीमाधोपुर
		774	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन आबादी	0.0541	महकमा न्यायिक विभाग (आवासगृह) श्रीमाधोपुर
		749	राजस्थान सरकार	बारानी ए	0.3139	नगरपालिका श्रीमाधोपुर
		664	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन आबादी	0.0821	नगरपालिका श्रीमाधोपुर
		663	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन आबादी	0.0070	नगरपालिका श्रीमाधोपुर
		661	राजस्थान सरकार	बारानी ए	0.0482	नगरपालिका श्रीमाधोपुर
		650	राजस्थान सरकार	चाही 1	0.2246	नगरपालिका श्रीमाधोपुर
		642	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0177	राजस्थान सरकार
		580	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन चाह	0.0018	राजस्थान सरकार
		581	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन चाह	0.0129	राजस्थान सरकार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		582	राजस्थान सरकार	चाही 1	0.1410	नगरपालिका श्रीमाधोपुर
		594	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0162	राजस्थान सरकार
		596	राजस्थान सरकार	चाही 1	0.3949	नगरपालिका श्रीमाधोपुर
(12) भारनी		117	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0239	राजस्थान सरकार
(13) पटवारी का बास		2381	राजस्थान सरकार	चरागाह	0.0500	राज. सरकार (चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु)
		2382	राजस्थान सरकार	चरागाह	1.4556	राज. सरकार (चरागाह व अन्य सामान्य काम हेतु)
(14) मालाकाली		2520	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन सडक	0.0269	सिवायचक बिना लगानी सार्वजनिक निर्माण विभाग
(15) जैतुसर		2746	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0200	राजस्थान सरकार पगडडियां तथा रास्ते (चारागाह के लिये नहीं)
		2840	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन आबादी	0.0468	राजस्थान सरकार
(16) रींगस		2903/1	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0431	परिवहन मंत्रालय भूतल पथ भाग भारत सरकार
		2927	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0400	परिवहन मंत्रालय भूतल पथ भाग भारत सरकार
		2946/5766	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन सडक	0.0168	परिवहन मंत्रालय भूतल पथ भाग भारत सरकार
		2929	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन सडक	0.0600	2929/1 नगरपालिका रींगस खातेदार 2929/2 परिवहन मंत्रालय भूतल पथ भाग भारत सरकार
		2930	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0223	2930/1 नगरपालिका रींगस खातेदार 2930/2 परिवहन मंत्रालय भूतल पथ भाग भारत सरकार
		2931	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0138	राजस्थान सरकार
		2969	राजस्थान सरकार	बारानी 2 बंजड	0.0517	नगरपालिका रींगस खातेदार
		3286	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता/सडक	0.0563	महकमा P.W.D.
		3316	राजस्थान सरकार	बारानी 3	0.2188	नगरपालिका रींगस खातेदार
		3317/5879	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0416	परिवहन मंत्रालय भूतल पथ भाग भारत सरकार
		3574	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन सडक	0.0034	परिवहन मंत्रालय भूतल पथ भाग भारत सरकार
		3573	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन सडक	0.0005	3573/1 राजस्थान सरकार 3573/2 परिवहन मंत्रालय भूतल पथ भाग भारत सरकार
		3578	राजस्थान सरकार	चारागाह	0.0008	राजस्थान सरकार
		2884	राजस्थान सरकार	चारागाह	0.0187	राजस्थान सरकार
		2881	राजस्थान सरकार	चारागाह	0.0600	राजस्थान सरकार
		2879	राजस्थान सरकार	गैर मुमकिन रास्ता	0.0172	राजस्थान सरकार

[फा. सं. 2010/एलएम(एल)/12/4-वेस्टर्न कॉरीडोर]

जमदीप राय, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुख सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd February, 2010

S.O. 245(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 2612 (E), dated the 6th November, 2008 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project Western Dedicated Freight Corridor in the District of Sikar (Shri Madhopur) in the State of Rajasthan;

And whereas, the substance of the said notification was published in Rajasthan Patrika and Dainik Bhaskar, both dated 01.02.2009 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objections have been filed before the Competent Authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project of Western Dedicated Freight Corridor in the Taluk of Shrimadhopur in the district of Sikar in the State of Rajasthan.

Sl. No.	Name of the Village	Gatta Number	Type of land	Nature of land	Area in Hectares	Name of the land owner/interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	(1) Kanwat	2383	Government Land	Gair Mumkin River	0.0096	Rajasthan Government
		2362	Government Land	Barani 3	0.0450	Rajasthan Government
	(2) Kanwat Gasipura	2349	Government Land	Barani 3	0.1535	Rajasthan Government
		2332	Government Land	Barani 3	0.1189	Rajasthan Government
		2331	Government Land	Banjad 1	0.0100	Rajasthan Government
		2330	Government Land	Aabadi	0.0092	Rajasthan Government
		2135	Government Land	Gair Mumkin Road	0.0255	Public Works Department Road.

407 GI/10-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2060	Government Land	Gair Mumkin Rasta	0.0600	Rajasthan Government
		2050	Government Land	Gair Mumkin Rasta	0.0274	Rajasthan Government
		1422	Government Land	Gair Mumkin Khadda	0.0054	Rajasthan Government
		1420	Government Land	Banjad 1	0.0119	Rajasthan Government
		1415	Government Land	Banjad 1	0.0600	Rajasthan Government
		1416	Government Land	Banjad 1	0.0377	Rajasthan Government
		1202	Government Land	Gair Mumkin Nala	0.1100	Rajasthan Government
		1200	Government Land	Gair Mumkin Nala	0.2500	Rajasthan Government
		1201	Government Land	Gair Mumkin Nala	0.1200	Rajasthan Government
		1197	Government Land	Gair Mumkin Nala	0.0034	Rajasthan Government
		1198	Government Land	Gair Mumkin Nala	0.0536	Rajasthan Government
	(3) Jugalpura	2191	Government Land	Ghair Mumkin Rasta	0.0900	Rajasthan Government
		2199	Government Land	Barani 3	0.0500	Rajasthan Government
		2201	Government Land	Barani 3	0.2500	Rajasthan Government
		2262	Government Land	Gair. Mumkin Rasta	0.0051	Rajasthan Government
		2325	Government Land	Gair. Mumkin Rasta	0.0080	Rajasthan Government
		2326	Government Land	Gair. Mumkin Rasta	0.0600	Rajasthan Government
		2403	Government Land	Gair Mumkin River	0.1908	Rajasthan Government
	(4) Kalyawaas	67	Government Land	Ga. Mumkin Rasta	0.5400	Rajasthan Government
		121	Government Land	Rasta	0.1200	Rajasthan Government
		160	Government Land	Barani 3	0.1500	Rajkiya Uchch Prathmik Vidhyalaya Kaliyawas khatedar
		162	Government Land	Road	0.0984	Public Works Department
		166	Government Land	Rasta	0.0259	Rajasthan Government
		165	Government Land	Rasta	0.1300	Rajasthan Government
	(5) Bhadwari	1594	Government Land	Aabadi	0.0200	Rajasthan Government
		1593	Government Land	Gair Mumkin Kharda	0.2000	Rajasthan Government
		1592	Government Land	Gair Mumkin Kharda	0.2300	Rajasthan Government
		1591	Government Land	Gair Mumkin Kharda	0.1200	Rajasthan Government
		1558	Government Land	Gair Mumkin Rasta	0.0450	Rajasthan Government
		1532	Government Land	Aabadi	0.1000	Rajasthan Government
		1530	Government Land	Gair Mumkin Rasta	0.0032	Rajasthan Government
		1529	Government Land	Gair Mumkin Rasta	0.0127	Rajasthan Government
		1526	Government Land	Gair Mumkin Rasta	0.0569	Rajasthan Government
		1528	Government Land	Gair Mumkin Rasta	0.1092	Rajasthan Government
		1525	Government Land	Gair Mumkin Rasta	0.0542	Rajasthan Government

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1313	Government Land	Gair Mumkin Kharda	0.1665	Rajasthan Government
	(6) Madho Ka Bas	172/300	Government land	Gair Mumkin Rasta	0.1300	Rajasthan Government
		211	Government land	Gair Mumkin Rasta	0.0367	Rajasthan Government
		151 299	Government land	Gair Mumkin Rasta	0.6000	Rajasthan Government
	(7) Jorawar Nagar	595	Government Land	Charagha	0.3811	Rajasthan Government
	(8) Kanchanpur	811	Government Land	Banjad I	0.1571	Rajasthan Government
		812	Government Land	Gair Mumkin Rasta	0.0168	Rajasthan Government
		825	Government Land	Gair Mumkin Rasta	0.4000	Rajasthan Government
		790	Government Land	Gair Mumkin Rasta	0.0416	Rajasthan Government
	(9) Dhani Dera Wali	1680	Government Land	Gair Mu Rasta	0.0218	Rajasthan Government
	(10) Haaspur	1128	Government Land	Gair Mumkin Rasta	0.0121	Rajasthan Government
	(11) Shri madhopur	1936	Government Land	Charagah	1.6056	Rajasthan Government Charagah & for other ordinary work
		2014	Government Land	Gair Mumkin Khadda	0.2593	Rajasthan Government Sivayachak
		2108	Government Land	Road	0.0791	Public Works Department Rajasthan Public Works Department Shrimadhopur
		774	Government Land	Aabadi	0.0541	Juridical Department (Residential Quarter) Shrimadhopur
		719	Government Land	Barani A	0.3139	Municipality Shrimadhopur
		664	Government Land	Gair Mumkin Aabadi	0.0821	Municipality Shrimadhopur
		663	Government Land	Gair Mumkin Aabadi	0.0070	Municipality Shrimadhopur
		661	Government Land	Barani A	0.0482	Municipality Shrimadhopur
		650	Government Land	Chahi I	0.2246	Municipality Shrimadhopur
		642	Government Land	Gair Mumkin Rasta	0.0177	Rajasthan Government
		580	Government Land	Gair Mumkin Chah	0.0018	Rajasthan Government
		581	Government Land	Gair Mumkin Chah	0.0129	Rajasthan Government
		582	Government Land	Chahi I	0.1410	Municipality Shrimadhopur
		594	Government Land	Gair Mumkin Rasta	0.0162	Rajasthan Government
		596	Government Land	Chahi I	0.3949	Municipality Shrimadhopur
	(12) Bharni	117	Government Land	Ga. Mumkin Rasta	0.0239	Rajasthan Government
	(13) Patwari Ka Vaas	2381	Government Land	Charagha	0.0500	Rajasthan Government (Charagah & for others ordinary work)
		2382	Government Land	Charagha	1.4556	Rajasthan Government (Charagah & for others ordinary work)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(14) Malakali	2520	Government Land	GairMumkinRoad	0.0269	Sivaya chak bina lagani Public Works Department
	(15) Jaitusar	2746	Government Land	Ga.MumkinRasta	0.0200	Rajasthan Government Pagdandian & Raste Not for Charagah
		2840	Government Land	Aabadi Land	0.0468	Rajasthan Government
	(16) Ringas	2903/1	Government Land	Ga- Mumkin Rasta	0.0431	Public Works Department
		2927	Government Land	Ga: Mumkin Rasta	0.0400	Transport Department Government of India
		2946/5766	Government land	Ga. Mumkin Rasta	0.0168	Transport Department Government of India
		2929	Government land	Ga. Mumkin Rasta	0.0600	2929/1 Rajasthan Government 2929/2 Public Works Department
		2930	Government land	Ga. Mumkin Rasta	0.0223	2930/1 Municipal Ringas Khatedar 2930/2 Public Works Department
		2931	Government land	Ga. Mumkin Rasta	0.0138	Rajasthan Government
		2969	Government land	Barani 2 Banjad	0.0517	Municipal Ringas
		3286	Government land	Ga. Mumkin Rasta/ Road	0.0563	Public Works Department
		3316	Government land	Barani 3	0.2188	Municipal Ringas Khatedar
		3317/5879	Government land	Ga. Mumkin Rasta	0.0416	Transport Department Government of India
		3574	Government land	Ga. Mumkin Rasta	0.0034	Transport Department Government of India
		3573	Government land	Ga. Mumkin Rasta	0.0005	3573/1 Rajasthan Government 3573/2 Public Works Department
		3578	Government Land	Charagah	0.0008	Rajasthan Government
		2884	Government Land	Charagah	0.0187	Rajasthan Government
		2881	Government Land	Charagah	0.0600	Rajasthan Government
		2879	Government Land	Rasta/Road	0.0172	Rajasthan Government

[F. No. 2010/LM(L)/12/4-Western Corridor]

JAGDIP RAI, Executive Director, (Land and Amenities-1)